



# Indian Adventure Foundation

INDIAN ADVENTURE INSTITUTE (YPAHS) Coming Soon...  
OFFICE ADD. (IAF) : 159 NEAR RAILWAY CROSSING SERKOI BHOOR MORADABAD UP PIN CODE : 244001  
CONTACT NO +91-7060053377, +91-9457075892  
E-mail : info@iafindia.org • Web.: iafindia.org

Ref No :- IAF/54/2019-20

Date:- 15.10.2019

कार्यालय आदेश  
IAF/Office Order /14/2019

समस्त डिप्टी डायरेक्टर,समस्त जोनल एडवेन्चर कोऑर्डिनेटर  
इण्डियन एडवेन्चर फाउन्डेशन

विषय: – द्वितीय बेसिक कोर्स की दिनांक को परिवर्तन के क्रम में।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय मे लेख है कि दिनांक 05.11.2019 से 17.11.2019 तक 12 दिन द्वितीय बेसिक कोर्स का आयोजन किया जाना था जो की अब दिनांक 12.11.2019 से 23.11.2019 तक किया जाएगा अपने राज्य/जिले/जोनल से प्रतिभाग करने वाले ट्रेनर्स की सूची दिनांक 01.11.2019 तक इण्डियन एडवेन्चर फाउन्डेशन राष्ट्रीय मुख्यालय मुरादाबाद को ईमेल/वॉटसप पर और हार्ड कोपी में इण्डियन एडवेन्चर फाउन्डेशन राष्ट्रीय मुख्यालय मुरादाबाद पर भेजने का श्रम करे। इण्डियन एडवेन्चर फाउन्डेशन सदभावना सहित। इण्डियन एडवेन्चर फाउन्डेशन आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है।  
पत्र आपको सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



राष्ट्रीय अध्यक्ष  
इण्डिया एडवेन्चर फाउन्डेशन  
राष्ट्रीय मुख्यालय

प्रतिलिपि-

1. समस्त राष्ट्रीय मुख्यालय स्टाफ इण्डियन एडवेन्चर फाउन्डेशन।
2. रिजनल डायरेक्टर इण्डियन एडवेन्चर फाउन्डेशन वेस्ट रिजन।
3. डिप्टी डायरेक्टर इण्डियन एडवेन्चर फाउन्डेशन छत्तिसगढ़,राजस्थान,गुजरात,हरयाणा,महाराष्ट्र,उत्तराखण्ड,उत्तर प्रदेश।
4. जोनल एडवेन्चर कोर्डिनेटर इण्डियन एडवेन्चर फाउन्डेशन छत्तिसगढ़,राजस्थान,गुजरात,हरयाणा,महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश।
5. डीविजनल एडवेन्चर कोर्डिनेटर इण्डियन एडवेन्चर फाउन्डेशन छत्तिसगढ़,राजस्थान,गुजरात,हरयाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश।
6. डीस्ट्रीक एडवेन्चर कोर्डिनेटर इण्डियन एडवेन्चर फाउन्डेशन छत्तिसगढ़,राजस्थान,गुजरात,हरयाणा,महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश।
7. ऑल राज्य एवं जोनल फिल्ड ऑफिसर इण्डियन एडवेन्चर फाउन्डेशन छत्तिसगढ़,राजस्थान।
8. गुजरात,हरयाणा,महाराष्ट्र,उत्तराखण्ड,उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय अध्यक्ष  
इण्डियन एडवेन्चर फाउन्डेशन  
राष्ट्रीय मुख्यालय उत्तर प्रदेश  
मुरादाबाद



Rescue Operation



Trekking



Rock Climbing



Skiing



Mountain Biking



River Rafting



Mountaineering



Paragliding